

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

नवंबर, 2021 महीने की प्रमुख उपलब्धियां

पत्तन

1. जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपीटी) में नवंबर, 2021 महीने के दौरान संभाला गया कुल यातायात 6.44 मिलियन टन था, जो नवंबर, 2021 में संभाले गए 5.70 मिलियन टन की तुलना में 13.08% अधिक है। पिछले वर्ष के समान महीने के 5.10 मिलियन टन के कंटेनर यातायात और 0.59 मिलियन टन के बल्क यातायात की तुलना में इस महीने के यातायात में 5.86 मिलियन टन के कंटेनर यातायात और 0.59 मिलियन टन के बल्क कार्गो यातायात शामिल हैं। टीईयू के संबंध में जेएनपीटी में अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 तक के दौरान संभाला गया कंटेनर यातायात 2,762,173 टीईयू की तुलना में 3,652,474 टीईयू था जोकि पिछले वर्ष के समान महीने के दौरान संभाले गए यातायात से 32.23% अधिक है। जेएनपीटी ने नवंबर, 2021 महीने के दौरान 473,108 टीईयू की संभलाई की। पिछले वर्ष समान महीने की तुलना में कंटेनर यातायात में 14.35% की वृद्धि हुई है।
2. दुर्गाचक से हल्दिया डॉक परिसर (एचडीसी) तक दूसरी रेल लाइन के प्रचालन से एचडीसी की गति में वृद्धि हुई है और एचडीसी ने पिछले अधिकतम 38 रैक को पार करते हुए, 15 नवंबर, 2021 को 40 रैक इंटरचेंजिस की अधिकतम संख्या की संभलाई की है।
3. दिनांक 3 नवंबर, 2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के तहत भारत के राजपत्र में 5 नियमों को भी दिनांक 23 नवंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया है।

गति शक्ति कार्यक्रम

मंत्रालय ने प्रधान मंत्री के गति शक्ति कार्यक्रम, मल्टी-मॉडल संपर्कता के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान, के संबंध में दिनांक 26 नवंबर, 2021 को महात्मा मंदिर, गांधी नगर, गुजरात में डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, गुजरात सरकार, गुजरात समुद्री बोर्ड, बीआईएसएजी-एन और एफआईसीसीआई के सहयोग से एक दिवसीय जोनल सम्मेलन और कार्यशाला को आयोजित किया।

इस अवसर पर, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री, सम्मानित अतिथि की गौरवान्वित उपस्थिति में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई। विभिन्न केंद्र मंत्रालयों, गुजरात सरकार के अधिकारी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव जैसे विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, मुंबई पत्तन और जेएनपीटी के अध्यक्ष, राजस्थान सरकार, गुजरात समुद्री बोर्ड, महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड, सागरमाल, बीआईएसएजी-एन और एफआईसीसीआई, अडानी पत्तन, एलएंडटी, इंडस टॉवर्स तथा अन्य सरकारी संगठनों एवं निजी संस्थानों के एमडी एवं कार्मिकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख भाषण दिया और इस बात पर जोर दिया कि

इस विज्ञान को निष्पादित करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

अंतर्देशीय जल परिवहन

1. नवंबर, 2021 महीने के दौरान धुबरी टर्मिनल पर 4359.518 एमटी की राहत सामग्री/खाद्यान्न (चावल) की संभलाई की गई थी।
2. अंतर्देशीय जल पारागमन एवं व्यापार मार्ग पर प्रोटोकॉल में 852 आवक एवं जावक अनुमतियां जारी की गईं। नवंबर, 2021 के दौरान भूटान के 6017 एमटी स्टोनचिप्स/क्रशड स्टोन से लदे 34 बांग्लादेशी जलयानों ने धुबरी (भारत) से चिलमारी (बांग्लादेश) तक का सफर तय किया।
3. इस वर्ष अभी तक राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो आवागमन उत्साहवर्धक बना रहा। अप्रैल-अक्टूबर, 2021 से अब तक 54.03 मिलियन टन कार्गो यातायात हासिल किया गया जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए 37.22 मिलियन टन था और इस तरह 45.15% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई।
4. मैसर्स हेरिटेज रीवर जर्निज प्राईवेट लिमिटेड के क्रूज जलयान वाइजर-II द्वारा 36 यात्रियों के साथ कोलकाता से गंगा सागर तक की एक दूरतरफा वाणिज्यिक यात्रा पूरी की गई। ओडिशा में भीतरकाणिका राष्ट्रीय पार्क में चार कटमरैन लक्जरी नौकाओं का परीक्षण प्रचालन चलाया गया है। नियमित आवागमन मार्च, 2022 शुरू होना है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

1 नवंबर, 2021 को माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की निम्नलिखित परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया:

- एसकेओ मैरीटाइम एस, नॉर्वे हेतु बनाई जा रही 2 एसकेओ ऑटोबार्ज एसपी की शुरूआत।
- सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), ग्रह मंत्रालय हेतु बनाए जा रहे 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट (एफबीओपी) की शुरूआत।
- ई-मॉडल रूम, 'स्मृति' जोकि सीएसएल के पोत निर्माण इतिहास को दर्शाता है।

स्वदेशी विमान वाहक का परीक्षण

स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) का दूसरा समुद्री परीक्षण 24 अक्टूबर, 2021 से 2 नवंबर, 2021 तक लगातार 10 दिनों की अवधि के लिए किया गया। विभिन्न जीटी पद्धतियों के लिए जलयान की प्रणोदन प्रणालियों पर समुद्र के भीतर व्यापक परीक्षण पूरे किए गए।

भारतीय नौवहन निगम का युक्तिपूर्ण विनिवेश

एससीआई की युक्तिपूर्ण विनिवेश प्रक्रिया के तहत डिमर्जर के एक अंग के रूप में कंपनी की गैर-मूल परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए इस मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा दी गई सहमति के आधार पर निदेशक मंडल के अनुमोदन के परिणामस्वरूप 10 नवंबर, 2021 को भारतीय नौवहन

निगम (एससीआई) द्वारा एक पूर्णस्वामित्व वाली अनुषंगिक "शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड" को निगमित किया गया।

आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मार्च, 2021 से अगस्त, 2022 तक आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए सप्ताहवार कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें महापत्तनों में शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय के अंतर्गत 27 संगठनों द्वारा विभिन्न गतिविधियां जैसे निबंध लेखन प्रतियोगिता, देश भक्ति गीत/प्रेरणाप्रद गीत-गायन प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर प्रश्नोत्तरी आदि आयोजित की गई हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा पोषण, व्यायाम और योग पर कार्यक्रम भी किए गए हैं। वृद्ध सदन को सहायता देने, कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र, नेत्र जांच कैंप और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही, हितधारक परामर्श भी आयोजित किए गए हैं। अब तक मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा लगभग 121 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और आयोजन के उपरांत लगभग 102 कार्यक्रमों का विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।